

### प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.07.2022 जनपद देवरिया

दिनांक 17.07.2022 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश आदि की कार्यवाही करने हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्टों, देवारा क्षेत्रों एवं संभावित स्थानों पर दबिश देकर मौके से कुल लगभग 76 लीटर अवैध कच्ची व अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए कुल 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध 07 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 17.07.2022 को उ0नि0 दिनेश कुमार थाना गौरीबाजार मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर एक व्यक्ति को छेरिहा चौराहा के पास से एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त 01. गुल मोहम्मद अंसारी पुत्र मुस्तकीन अंसारी सा0 खिरहा थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये गौरीबाजार पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 17.07.2022 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➡थाना रूद्रपुर- मु0अ0स0 226/2022 धारा 365 भादवि0 नाम अभि0- 1-अमन सिंह पुत्र फुल सिंह सा0 गुडरी थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया

➡थाना खामपार- मु0अ0स0 154/2022 धारा 363 भादवि0 नाम अभि0-1- मोसाहेब मंसूरी पुत्र छोटेलाल मास्टर सा0 चकिया कोठी थाना खामपार जनपद देवरिया ।

➡थाना गौरीबाजार- मु0अ0स0 277/2022 धारा 376/316/506 भादवि0 5/6 पाक्सो एक्ट नाम अभि0- 1- अखिलेश यादव पुत्र रामबदन यादव सा0 जोगम टोला पिपराहवां थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।

➡थाना बनकटा- मु0अ0स0 257/2022 धारा 354 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट नाम अभि0- 1- भारत भूषण मिश्रा उर्फ गांधी पुत्र स्व0 लल्लन मिश्रा सा0 सिलरहटा थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

04-निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 17.07.2022 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 63 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

05-जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 17.07.2022 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 73 वाहनों से 68,500/- रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।